

## प्रेस नोट

**थाना सिरसागंज पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तस्कर नायाब तरीक से शराब की तस्करी करने जिसके कब्जे से ट्रैक्टर मय ट्राली जिसमें अवैध 105 पेटी नाजायज अंग्रेजी शराब MC DOWELLS NO.1 SUPERIOR WHISKY ORIGINAL मार्का कीमत करीब 725000 रूपये है**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय फिरोजाबाद के निर्देशन में चैकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति एवं अवैध शराब की तस्करी रोकने के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.09.2020 को समय 21.15 बजे रात्रि प्रभारी निरीक्षक द्वारा मय हमराही कर्मगण के एक अलग तरीके से शराब की तस्करी ट्रैक्टर महिन्द्रा मय ट्राली के शेखूपुर मोड अभियुक्त लालाराम मीणा पुत्र कालूराम मीणा निवासी ग्राम कुंवरपुरा पोस्ट बडोदिया थाना कोदखाबदा जिला जयपुर, राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है शराब तस्करों द्वारा शराब तस्करी का नायाब तरीका ट्राली में देशी खाद के नीचे बने बाक्स में अंग्रेजी शराब भरकर हरियाणा से विभिन्न प्रान्तों में तस्करी कर राजस्व को क्षति पहुँचाते हैं जिन्हें चैकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है तस्करी में शामिल अन्य लोगों की जानकारी कर विधिक कार्यवाही की जायेगी । बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 658/20 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 420 भादवि0 का अपराध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### **नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त --**

1-लालाराम मीणा पुत्र कालूराम मीणा निवासी ग्राम कुंवरपुरा पोस्ट बडोदिया थाना कोदखाबदा जिला जयपुर, राजस्थान

### **अभियुक्त गण से वरामदगी का विवरण--**

- 1- एक ट्रैक्टर महिन्द्रा बिना नम्बर मय ट्राली
- 2- 105 पेटी अंग्रेजी शराब नाजायज जिसमें 396 बोतलें , 792 हाफ व 1822 क्वार्टर मार्का MC DOWELLS NO.1 SUPERIOR WHISKY ORIGINAL

### **अभियुक्त लालाराम मीणा उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग**

- 1- मु0अ0सं0 658/20 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 420 भादवि0 थाना सिरसागंज

### **गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मगणों के नाम--**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री गिरीशचन्द्र गौतम थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद
2. उ0नि0 श्री मौहर सिंह थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद
3. उ0नि0 श्री रनवीर सिंह थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद
4. है0का0 541 छन्नूलाल, का0 भूपेन्द्र व का0 हिमांशु का0 राहुल थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद